



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 श्रावण 1940 (श10)
(सं० पटना 707) पटना, बुधवार, 25 जुलाई 2018

सं० जी/विविध-20-03/2018-6703

गृह विभाग
(विशेष शाखा)

संकल्प
20 जुलाई 2018

विषय:- राज्य में आपात अनुक्रिया सहायक तंत्र (ERSS) योजना के परिचालन हेतु कुल व्यय ₹10.69 करोड़ रुपये (दस करोड़ उनहतर लाख रुपये मात्र) पर C-DAC, तिरुवनन्तपुरम को Total Service Provider (TSP) के रूप में नामित करते हुए कार्यादेश प्रारूप पर पुलिस महानिरीक्षक (आधुनिकीकरण)-सह-नोडल पदाधिकारी, ERSS को हस्ताक्षर करने पर सहमति प्रदान करने के संबंध में।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जस्टिस जे0एस0वर्मा समिति की अनुशंसा के आधार पर आपात अनुक्रिया सहायक तंत्र (ERSS) योजना लागू करने का निर्णय किया गया है जिसके अन्तर्गत पूर्व में लागू पुलिस, एम्बुलेंस, महिला सुरक्षा, अग्निशमन आदि सभी प्रकार की आपात सेवाओं हेतु पृथक-पृथक आपात सहायता नंबरों के स्थान पर एकल नं०-112 स्थापित किया जाना है। ये आपात कालीन सेवायें एक राज्य स्तरीय Call Centre के जरिए प्रदान की जानी हैं।

2. केन्द्र सरकार की अनुशंसा तथा उक्त परियोजना के समन्वय हेतु गठित राज्य शीर्ष समिति (State Apex Committee) की दिनांक 02.02.2018 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में C-DAC, तिरुवनन्तपुरम को केरल राज्य एवं C-DAC के मध्य किये गये समझौते के अनुरूप आपात अनुक्रिया सहायक तंत्र (ERSS)

परियोजना के बिहार राज्य में परिचालन (स्थापना एवं क्रियान्वयन) हेतु कुल व्यय ₹10.69 करोड़ रुपये (दस करोड़ उनहत्तर लाख रुपये मात्र) पर C-DAC, तिरुवनन्तपुरम को Total Service Provider के रूप में नामित करते हुए कार्यादेश एवं Services Level Agreement पर पुलिस महानिरीक्षक (आधुनिकीकरण)–सह–नोडल पदाधिकारी, ERSS को हस्ताक्षर करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी विभागों/सभी विभागाध्यक्षों/सभी प्रमंडलीय आयुक्तों/सभी जिला पदाधिकारियों/सभी जिला पुलिस अधीक्षकों/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/अपर पुलिस महानिदेशक (आधुनिकीकरण) बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक (आधुनिकीकरण) बिहार, पटना/एवं संयुक्त सचिव (पी0एम0 II), गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाए।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

अमित कुमार,

सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 707-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>